

तुरंत रिलीज के लिए

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, आर्थिक बहाली को सहयोग करने के लिए, लोकल रेस्टोरेंट्स और बार्स के दुबारा खुलने अनुमति मिलने पर बाहरी जगहों (आउटडोर स्पेसिज) का विस्तार करने की अनुमति देगी

ब्रैम्पटन, ओन्टैरियो (15 जून, 2020) – पिछले सप्ताह, ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल (Brampton City Council) ने लोकल रेस्टोरेंट्स और बार्स को सहयोग करने के लिए योजनाओं को मंजूरी दी क्योंकि अब वे दुबारा खुलने के लिए तैयार हैं, जब प्रांत द्वारा अनुमति दी जाएगी।

रीजन काउंसिलर, पैट फोर्टिनी (Pat Fortini) ने लोकल रेस्टोरेंट्स, जैक एस्टर्स बार एंड ग्रिल (Jack Astor's Bar and Grill) और ऑस्कर्स रोडहाउस बार एंड ग्रिल (Oscar's Roadhouse Bar and Grill) से बात करने के बाद, काउंसिल में एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें उन्होंने अनुरोध किया था कि लोकल रेस्टोरेंट्स और बार्स को उनकी बाहरी जगहों का विस्तार करने की अनुमति दी जाए। प्रस्ताव, काउंसिल द्वारा सर्वसम्मति से पास किया गया था।

ब्रैम्पटन में रेस्टोरेंट्स और बार्स को अपने पैटियो, पगडंडियों और निजी पार्किंग वाले क्षेत्रों तक बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी, जिससे अधिक लोग बाहर बैठ पाएंगे। यह प्रांत द्वारा, बाहर भोजन करने की सेवाओं को दुबारा खोलने की अनुमति देने के बाद होगा। इस समय, ओन्टैरियो सरकार (Ontario Government) ने, रीजन ऑफ पील (Region of Peel) में रेस्टोरेंट्स, बार्स और अन्य संस्थानों को दुबारा खोलने की अनुमति नहीं दी है।

2020 के लिए, बाहरी पैटियो और पगडंडी की परमिट फीस से भी छूट दी जाएगी, जिससे लोकल रेस्टोरेंट्स और छोटे कारोबारियों को उनकी बहाली में मदद मिलेगी।

सिटी को सुरक्षित तरीके से और धीरे-धीरे दुबारा खोलने की प्लानिंग जारी है। काउंसिल और स्टाफ, पब्लिक हेल्थ के निर्देशों और शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए, कम-जोखिम वाले कामों को बढ़ाने के तरीकों की पहचान करने के लिए रेस्टोरेंट्स और कारोबारियों के साथ मिलकर काम करेंगे।

इकोनॉमिक रिकवरी स्ट्रैटजी

लोकल कारोबार, ब्रैम्पटन की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पिछले महीने, ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल ने, ब्रैम्पटन की [इकोनॉमिक रिकवरी स्ट्रैटजी \(Economic Recovery Strategy\)](#) को मंजूरी दी थी, जिसमें छोटे कारोबारों, रेस्टोरेंट्स और टूरिज्म को सहयोग करने के कार्य शामिल हैं। इसके हिस्से के तौर पर, सिटी ने कोविड-19 (COVID-19) के दौरान और इसके बाद, निवासियों को लोकल वस्तुओं की पड़ताल करने, उनका चयन करने और खरीदने की सलाह देते हुए, अपने [“सपोर्ट लोकल” अभियान \(“Support Local” campaign\)](#) की शुरुआत की थी।

हवाले

“हम लाभदायक समाधानों पर हमारे लोकल कारोबारियों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं क्योंकि वे सुरक्षित रूप से दुबारा खोलने के लिए ज़रूरी समायोजन कर रहे हैं। मेरा परिवार हमारे लोकल रेस्टोरेंट्स से, प्रत्येक टेकआउट वेडनेसडे (हर बुधवार तो लोकल रेस्टोरेंट्स से भोजन खरीद कर ले जाना) का आनंद ले रहा है। मैं बाहर भोजन करने और लोकल को सहयोग देना जारी रखने के लिए बेहद उत्साहित हूँ, जब ऐसा करने की अनुमति होगी और यह सुरक्षित होगा।”

– पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“हमने हमारे लोकल रेस्टोरेंट्स की सपष्ट राय ली है कि कोविड-19 के परिणामस्वरूप उन पर कितना बुरा असर पड़ा है। जैसे कि अब धीरे-धीरे दुबारा खोलने का काम जारी है, हम हमारे लोकल कारोबारों की पूरी और सुरक्षित बहाली में मदद करने के सभी तरीकों पर विचार करेंगे।”

– गुरप्रीत ढिल्लों (Gurpreet Dhillon), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 9 और 10; चेयर, इकोनॉमिक डेवलेपमेंट एंड कल्चर; सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्रैम्पटन के छोटे कारोबारियों की भलाई, हमारे लिए सबसे पहले है, अब कारोबारियों को उनकी बाहरी जगहों में इन बदलावों की योजना को अनुमति देने से, यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि जब हमें प्रांत और पील पब्लिक हेल्थ द्वारा अनुमति मिलेगी तो वे दुबारा खोलने के लिए तैयार होंगे।”

– पॉल विसेंट (Paul Vicente), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; वाइस-चेयर, इकोनॉमिक डेवलेपमेंट एंड कल्चर; सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“हमारे स्टाफ और काउंसिल ने हमारे लोकल कारोबारियों और स्टैकहोल्डर्स की जरूरतों को सुना है और हम उनके दुबारा खोलने की प्रक्रिया में उन्हें सहयोग करने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं। सिटी के तौर पर, हमारी भूमिका, हमारे समुदाय की सामूहिक बहाली और सुरक्षा को सहयोग करना है। मुझे पता है कि बाहरी जगहों का विस्तार इसमें मदद करेगा।”

– डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ओनटैरियो रेस्टोरेंट होटल एंड मोटल एसोसिएशन, बाहरी जगहों को खोलने और इनके क्षेत्रों के विस्तार की अनुमति देने के लिए प्रस्ताव करवाने के लिए सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की सराहना करता है। रेस्टोरेंट्स को काफी नुकसान हुआ है और इस अनुमति से वे उपभोक्ताओं में धीरे-धीरे भरोसा कायम कर पाएंगे ताकि वे पेश किए जाने वाले स्वादिष्ट भोजन के लिए उनके रेस्टोरेंट में आएंगे।”

– टोनी इलेनिस (Tony Elenis), प्रेजिडेंट और चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर, ओनटैरियो रेस्टोरेंट होटल एंड मोटल एसोसिएशन (ओ.आर.एच.एम.ए.)

“डाउनटाउन ब्रैम्पटन में लंबे समय से स्थापित और उच्च तकनीक वाले कारोबार के तौर पर, हम इस बेहद मुश्किल समय के दौरान हमारे समुदाय और सिटी द्वारा दर्शाए जाने वाले सहयोग के लिए उनके बहुत-बहुत शुक्रगुजार हैं। सिटी द्वारा घोषित इन बदलावों से हम दुबारा खोलने की अनुमति मिलने पर, अधिक से अधिक सुरक्षित तरीके से, अधिक संख्या में हमारे सम्मानित और गैर-मौजूद ग्राहकों को जगह दे पाएंगे। मैं जल्दी से जल्दी हर किसी को यहां देखने के लिए उत्साहित हूँ, जब ऐसा करना सुरक्षित हो।”

– सबीना कौल्टर (Sabena Coulter), मालिक, फैंजोरेलीज रेस्टोरेंट एंड वाइन बार

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोआर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca